

## प्रेस नोट दिनांक-24.05.2021

(1). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 24.05.2021 एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा परानू बाबा मन्दिर में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर चित्रकूट द्वारा कस्बा राजापुर एवं क्योटरा मोहल्ले में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा कस्बा भरतकूप के भरतकूप मंदिर रोड, भरतकूप स्टेशन रोड, कस्बा मे, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी व ग्राम किहुनिया में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 188/2021 धारा 376 भादवि0, 04 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त आबिद पुत्र रफीक निवासी कोल गदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री राजेश कुमार यादव आबकारी निरीक्षक एवं उ0नि0 श्री राजकपूर यादव थाना राजापुर की संयुक्त टीम द्वारा वहद ग्राम महुआगांव से अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी महुवागांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 21 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

21 अदद क्वार्टर देशी शराब

### बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव
2. उ0नि0 श्री राजकपूर यादव थाना राजापुर
3. आबकारी आरक्षी लालाराम
4. आरक्षी अखिलेश
5. आबकारी महिला आरक्षी कविता

### (4). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2042 थाना बरगढ़ अंतर्गत दिनांक 23/05/2021 को समय 13:36 बजे इवेंट संख्या 7137 द्वारा घटनास्थल भाटी किसैनी मोड़ थाना बारगढ़ से कॉलर सुरेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा सूचना दी गयी कि एक्सीडेंट हो गया है घायल की जानकारी नहीं है।

कृत कार्यवाही- इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि क्रेटा गाड़ी up20ch9804 गाड़ी से माँ बेटा प्रयागराज से आ रहे थे। लड़का गाड़ी चला रहा था तभी रास्ते में नींद आ जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई जिससे गाड़ी सवार दोनों माँ

और बेटा घायल हो गये थे दोनों घायलो को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊ में भर्ती कराया गया है परिवार वालों को सूचना दी गई थी। रिश्तेदार मौके पर आ गये है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी बरगढ़ को भी बताया गया है।

**पीआरवी स्टाफ:-**

कमांडर – मुख्य आरक्षी काशीनाथ

पायलट – मुख्य आरक्षी सुरेंद्र द्विवेदी

(5). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में आज दिनांक-24.05.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा ग्राम कपसेठी थाना कर्वी के सम्पूर्ण आवासीय बस्ती में सेनेटाइज किया गया।